

मंडवार पुलिस ने चार शातिर ठगों को किया गिरफ्तार: एक मूर्ति और साढ़े 15 लाख के नकली नोट के साथ एक वैगनार कार भी बरामद



बिजनौर की मंडावर पुलिस ने आज चार शातिर ठगों को गिरफ्तार किया है, जो भगवान महावीर की पीली धातु की मूर्ति को सोने की बताकर बेचने का प्रयास कर रहे थे। साथ ही पुलिस ने इनके कब्जे से 15 लाख रुपए नकली एक वैगनार कार भी बरामद की है। पुलिस आरोपियों को जेल भेजने की तैयारी में जुट गई है।

दरअसल आज बिजनौर की मंडावर पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर चेकिंग के दौरान मालन नदी के पुल से एक 4 लोगों को पीली धातु की भगवान मूर्ति की सौदा करते समय पकड़ा। पकड़े गए आरोपी वसीम, यूनुस, नाजिम, यूनुस है , जबकि इनका एक साथी अख्तर मौके से फरार हो गया पकड़े गए आरोपी वसीम ने पूछताछ में बताया की आरोपी अख्तर ने उसे भगवान महावीर की पीली धातु की मूर्ति सोने की बताकर सस्ते दाम में बेचने की बात कही थी, वसीम ने उसी के गांव के रहने वाले नाजिम और यूनुस को मूर्ति खरीदने के लिए तैयार किया और मूर्ति खरीदने के लिए नकली नोटों की गड्डी बनाई जिसमे नीचे ऊपर असली नोट और बाकी सब नकली लेकर मूर्ति का सौदा करने आये थे। तभी पुलिस ने इन्हें धर दबोचा पुलिस ने इनके पास से 15 लाख 83 हजार रुपए नकली 1400 रुपए असली एक भगवान महावीर की पीली धातु की मूर्ति, और एक कार बरामद की है।

एसपी देहात राम अर्ज ने घटना का खुलासा करते हुए बताया कि सभी आरोपियों के खिलाफ विधिक कार्रवाई की जा रही है। न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है, यह सभी लोग ठग हैं इनके विरुद्ध गैंगस्टर एक्ट की कार्यवाही भी की जाएगी।

Source: <https://www.bhaskar.com/local/uttar-pradesh/bijnor/news/a-wagner-car-was-also-recovered-along-with-an-idol-and-a-fake-note-of-155-lakhs-130671085.html>